

थाना कबरई पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में आगामी त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु जनपद में अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण, परिवहन की रोकथाम तथा उसमें लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 03.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कबरई प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 राशिद अली के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक नफर अभियुक्त विनोद पुत्र बृन्दावन को कानपुर रोड वाहद मुहल्ला कस्वा कबरई से नियमानुसार गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक थैले में 20 क्वार्टर देशी शराब झूम ब्राण्ड बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 37/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत करते हुये नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 राशिद अली
2. कां0 शुभम जायसवाल
3. कां0 अजीत कुमार यादव

गिरफ्तार अभियुक्त-

विनोद पुत्र बृन्दावन निवासी ग्राम बरबई थाना कबरई जनपद महोबा

बरामद सम्पत्ति:- 20 क्वार्टर देशी अवैध शराब झूम ब्राण्ड।



अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, दिये गये आवश्यक निर्देश।

आज दिनांक 04.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0के0 गौतम द्वारा जनपद महोबा की सीमा से लगे हुये बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे में भ्रमण कर एक्सप्रेस वे का औचक निरीक्षण करते हुये सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया, इस दौरान डायल-112 पीआरवी वाहन क्रमशः 1261 - 2515 की चेकिंग की गयी व ड्यूटी में मौजूद पुलिस कर्मचारियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिये गये।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी पीआरवी वाहनों के ड्यूटी प्वाइंट को चेक किया गया तथा पीआरवी वाहन में नियुक्त यूपी 112 पुलिस कर्मियों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराते हुये एक्सप्रेस वे सुरक्षा की जिम्मेदारी का अहसास कराया गया साथ ही निर्देशित किया गया कि सभी अपने निर्धारित प्वाइंट पर मौजूद रहें, अगर पीआरवी वाहन अपने निर्धारित प्वाइंट को छोड़कर अन्यत्र पाये गये तो सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

इसी क्रम में चेकिंग के दौरान गाड़ी में लगे आधुनिक उपकरणों को चेक किया गया तथा पीआरवी कर्मियों को गस्त के समय सायरन का प्रयोग करने व प्राप्त सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर निराकरण कराये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।



जनपदीय पुलिस बल द्वारा होली एवं शब-ए-बारात पर्व को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **04.03.2023** को श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर०के० गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र अन्तर्गत होलिका दहन के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा स्थानीय लोगों से वार्ता कर आपसी सौहार्द बनाए रखनें, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने तथा व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनको अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों के **145** ई-चालान किये गये ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 04.03.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस